



**Staff Selection Commission**  
(Government Of India)

**REGISTRATION NUMBER : 8002063297**  
**EXAM DATE : 30-August-2016**  
**EXAM NAME : SSC Examination 2016**  
**TOTAL MARKS : 200**

**CANDIDATE NAME : RUDRANGI NARESH KUMAR**  
**EXAM START TIME : 13:15:00**  
**EXAM DURATION : 01:15 Hrs**  
**TOTAL NO OF QUESTIONS : 100**

Question 1. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

EARTH : PLANET :: MOON : ?

पृथ्वी : ग्रह :: चांद : ?

**Options:**

1) SUN

सूरज

2) UNIVERSE

विश्व

3) VENUS

शुक्र

4) SATELLITE

उपग्रह

**Correct Answer:** SATELLITE

उपग्रह

**Candidate Answer:** SATELLITE

उपग्रह

Question 2. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

EJOT : \_\_\_\_\_ :: YDIN : VAFK

**Options:**

1) LQGB

2) BGLQ

3) QBGL

4) BGQL

**Correct Answer:** BGLQ

**Candidate Answer:** BGLQ

Question 3. Select the related word/letters/number from the given alternatives.

दिये गये विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षरों/संख्या को चुनिए।

100 : 10<sup>2</sup> :: 100000 : ?

**Options:**

1) 10<sup>5</sup>

2) 10<sup>4</sup>

3) 100<sup>3</sup>

4) 100<sup>4</sup>

**Correct Answer:** 10<sup>5</sup>

**Candidate Answer:** 10<sup>5</sup>

Question 4.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives

दिये गये विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/संख्या युग्म चुनिए।

**Options:**

- 1) Temple  
मंदिर
- 2) Worship  
प्रार्थना
- 3) Mosque  
मस्जिद
- 4) Church  
गिरजा घर

**Correct Answer:** Worship  
प्रार्थना

**Candidate Answer:** Worship  
प्रार्थना

Question 5.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives

दिये गये विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/संख्या युग्म चुनिए।

**Options:**

- 1) M N O M
- 2) B D C B
- 3) X Z Y X
- 4) P R Q P

**Correct Answer:** M N O M

**Candidate Answer:** M N O M

Question 6.

**For the following questions**

Find the odd word/letters/number pair from the given alternatives

दिये गये विकल्पों में से विषम शब्द/ अक्षर/संख्या युग्म चुनिए।

**Options:**

- 1) 70, 80
- 2) 54, 62
- 3) 28, 32
- 4) 21, 24

**Correct Answer:** 54, 62

**Candidate Answer:** 21, 24

Question 7. Arrange the following words as per order in the dictionary

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में लिखिए।

- 1) Pearl 2) Peasant 3) Pea 4) Peanut

**Options:**

- 1) 3, 1, 4, 2
- 2) 3, 4, 1, 2
- 3) 1, 3, 2, 4
- 4) 1, 2, 3, 4


**Correct Answer:** 3, 4, 1, 2

**Candidate Answer:** 3, 4, 1, 2

Question 8. Which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it?

अक्षरों का कौन-सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा ?

g f e \_ i g \_ e i i \_ f e i \_ g \_ j i



**Options:**

1) ifgie

2) figie

3) eifgi

4) ifige

**Correct Answer:** ifgie

**Candidate Answer:** ifgie

Question 9. Which one number when placed at the sign of interrogation shall complete the series

दिए गए विकल्पों में से कौन-सी संख्या प्रश्न वाचक चिन्ह पर रखने से श्रृंखला को पूरा करेगी -

3, 6, 18, 72, ...?..., 2160

**Options:**

1) 144

2) 216

3) 288

4) 360

**Correct Answer:** 360

**Candidate Answer:** 360

Question 10. Introducing a lady, a lady said, "She is the only daughter of Mohan's grandfather who is my husband's father". How does the lady relate herself with the introduced lady?

एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, कि वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है। दूसरी महिला का पहली से क्या सम्बन्ध है ?

**Options:**

1) Aunt

चाची / बुआ

2) Mother

माता

3) Mother-in-law

सासु-माँ

4) Sister-in-law

भाभी

**Correct Answer:** Sister-in-law

भाभी

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 11. Two years ago, Aadhya was three times as old as his son and two years hence, twice her age will be equal to five times that of her son. Find Aadhya's present age.

दो साल पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी, और 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान होगा। आध्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ?

**Options:**

1) 38 years

38 वर्ष

2) 36 years

36 वर्ष

3) 34 years

34 वर्ष

4) 42 years

42 वर्ष

**Correct Answer:** 38 years

38 वर्ष

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 12. From the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word:

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

ADMINISTRATION

**Options:**

1) STRAIN

2) TRADITION

3) SITUATION

4) RATION

**Correct Answer:** SITUATION

**Candidate Answer:** SITUATION

Question 13. If MOTHER is coded as KMRFCP, then HOUSE is coded as

यदि MOTHER को KMRFCP लिखा जाए, तो HOUSE को क्या लिखा जाएगा ?

**Options:**

1) FMRPC

2) GNSQD

3) GNRQD

4) FMSQC

**Correct Answer:** FMSQC

**Candidate Answer:** FMSQC

Question 14.If D stands for x, S stands for +, A stands for - and M stands for  $\div$ , what is the value of the given expression

यदि D का मतलब 'x', S का मतलब '+', A मतलब '-', और M मतलब ' $\div$ ' हो, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए ?

28D6S34M2A8D6

**Options:**

1) 558

2) 3312

3) 137

4) 31

**Correct Answer:** 137

**Candidate Answer:** 137

Question 15.If  $3 * 4 = 10$ ,  $5 * 8 = 18$ ,  $7 * 7 = ?$

यदि  $3 * 4 = 10$ ,  $5 * 8 = 18$ , हो, तो  $7 * 7 = ?$

**Options:**

1) 26

2) 21

3) 28

4) 49

**Correct Answer:** 21

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 16.In the following question, a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छाँटकर अनुक्रम को पूरा कीजिए।

1	2	3
11	7	5
120	45	?

**Options:**

1) 19

2) 16

3) 15

4) 17

**Correct Answer:** 16

**Candidate Answer:** 16

Question 17.Rahul starts and walks towards the south, he then turns to his right and walks 5 kms, then again turns left and walks 3 kms and then again turns left and walks 5 kms. In which direction is he from the starting point?

राहुल दक्षिण की ओर जाता है, फिर अपने दाएँ ओर मुड़कर 5 कि.मी. चलता है, फिर बाएँ ओर मुड़कर 3 कि.मी. चलता है, दोबारा फिर बाएँ ओर मुड़कर 5 कि.मी. चलता है। शुरुआती बिन्दु से वह किस दिशा में है ?

**Options:**

1) NORTH

उत्तर

2) SOUTH

दक्षिण

3) EAST

पूर्व

4) WEST

पश्चिम

**Correct Answer:** SOUTH

दक्षिण

**Candidate Answer:** SOUTH

दक्षिण

Question 18. Consider the given statement/s to be true and decide which of the given conclusions/assumptions can definitely be drawn from the given statement.

Statements:

- a) Odisha is still an underdeveloped state.  
b) Problems like poverty, unemployment and illiteracy have not been solved.

Conclusions:

- I) The administration of Orissa is not sensitive enough. II) It is the Will of God.

निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिये गये हैं, जिसके आगे दो निष्कर्ष/मान्यताएं, I और II निकाले गये हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन-सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष/मान्यता निकाला जा सकता है ?

कथन :

- I) ओडीसा अब भी एक अविकसित राज्य है।  
II) गरीबी, बेरोजगारी, और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई हैं।

निष्कर्ष :

- I) ओडीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है।  
II) यह ईश्वर की इच्छा है।

**Options:**

- 1) Only I follows

केवल निष्कर्ष I सही है।

- 2) Only II follows

केवल निष्कर्ष II सही है।

- 3) Both I and II follow

निष्कर्ष I और II दोनों सही हैं।

- 4) Neither I and II follows

ना तो निष्कर्ष I सही है ना ही II सही है।

**Correct Answer:** Neither I and II follows


ना तो निष्कर्ष I सही है ना ही II सही है।

**Candidate Answer:** Only I follows

केवल निष्कर्ष I सही है।

Question 19. How many triangles are there in the following figure?

नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं ?



**Options:**

- 1) 12

- 2) 16

- 3) 10

- 4) 20

**Correct Answer:** 20


**Candidate Answer:** 16

Question 20. Which illustrates the relationship amongst Judges, thieves and criminals?


निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा चित्र न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच सही सम्बन्ध को दर्शाता है ?

Options:


1)




2)




3)





4)



Correct Answer:




Candidate Answer:




Question 21. Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तर-आकृति प्रश्न-आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी ?




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:




Candidate Answer:




Question 22. From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded?

दिए गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।




Options:


1)




2)




3)





4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



Question 23. A piece of paper is folded and punched as shown below. From the given responses, indicate how will it appear when open?


यदि किसी कागज़ को नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार मोड़कर उसमें छेद किया जाए तो खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा ?






Options:


1)




2)




3)





4)



Correct Answer:




Candidate Answer:




Question 24. If a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन-सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिम्ब होगी ?




Options:


1)




2)




3)





4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



Question 25. In the question, a word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as in two matrices given below. The columns and rows of Matrix I are numbered from 0 to 4 and that of Matrix II are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, e.g., K can be represented by 00, 24, etc. and A can be represented by 55 etc. You have to identify the set for the word 'SHIP'

निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह, अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में हैं। आव्यूह I के सतम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है, और आव्यूह II के 5 से 9 तक, इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'K' को 00, 24 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा 'A' को 55 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए हुए शब्द 'SHIP' के लिए समूह को पहचानना है।

MATRIX - I						MATRIX - II					
	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
0	K	G	E	A	S	5	A	H	U	W	N
1	P	V	H	R	Y	6	Y	R	B	T	V
2	N	V	N	R	K	7	O	I	H	B	Q
3	W	S	B	O	J	8	V	O	E	I	S
4	T	U	A	I	P	9	E	T	K	W	P

**Options:**

1) 31, 56, 43, 10

2) 89, 12, 40, 99

3) 04, 21, 76, 44

4) 89, 56, 34, 11

**Correct Answer:** 31, 56, 43, 10

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 26. Silver gets corroded due to \_\_\_\_\_ in air.

चाँदी, हवा में \_\_\_\_\_ की उपस्थिति के कारण संक्षारित हो जाती है।

**Options:**

1) Oxygen

ऑक्सीजन

2) Hydrogen Sulphide

हाइड्रोजन सल्फाइड

3) Carbon dioxide

कार्बन डाइ ऑक्साइड

4) Nitrogen

नाइट्रोजन

**Correct Answer:** Hydrogen Sulphide

हाइड्रोजन सल्फाइड

**Candidate Answer:** Nitrogen

नाइट्रोजन

Question 27. Which of the following is a radioactive element?

निम्नलिखित में से कौन-सा रेडियोधर्मी तत्व है ?

**Options:**

1) Cobalt

कोबाल्ट

2) Uranium

यूरैनियम

3) Argon

आर्गन

4) Chromium

क्रोमियम

**Correct Answer:** Uranium

यूरैनियम

**Candidate Answer:** Uranium

यूरैनियम

Question 28. Right to Constitutional Remedies comes under \_\_\_\_\_

संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है ?

**Options:**

- 1) Legal rights  
कानूनी अधिकार
- 2) Fundamental rights  
मौलिक अधिकार
- 3) Human rights  
मानव अधिकार
- 4) Natural rights  
प्राकृतिक अधिकार

**Correct Answer:** Fundamental rights

मौलिक अधिकार

**Candidate Answer:** Fundamental rights

मौलिक अधिकार

Question 29. Which of the digestive organs contains acid?

निम्न में से किस पाचन-अंग में, अम्ल होता है ?

**Options:**

- 1) Stomach  
अमाशय
- 2) Small intestine  
छोटी आंत
- 3) Appendix  
एपेन्डिक्स
- 4) Colon  
कोलन

**Correct Answer:** Stomach

अमाशय

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 30. Which country is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar.

पाक जलडमरूमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन-सा देश भारत से अलग स्थित है ?

**Options:**

- 1) Bangladesh  
बांग्लादेश
- 2) Myanmar  
म्यांमार
- 3) Sri Lanka  
श्रीलंका
- 4) Pakistan  
पाकिस्तान

**Correct Answer:** Sri Lanka

श्रीलंका

**Candidate Answer:** Sri Lanka

श्रीलंका

Question 31. Which of the following fibres is considered as the strongest natural fibre?

निम्नलिखित में से कौन-सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है ?

**Options:**

- 1) Cotton  
कपास
- 2) Jute  
पटसन
- 3) Wool  
ऊन
- 4) Silk  
रेशम

**Correct Answer:** Silk

रेशम

**Candidate Answer:** Jute

पटसन

Question 32. Purpose of an optical filter is to : \_\_\_\_\_

प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है ?

**Options:**

- 1) reflect lights of different colours  
विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना
- 2) dispense light into component colours  
प्रकाश को घटक रंगों में छितराना
- 3) refract light of different colours  
विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन करना
- 4) transmit or absorb light of different colours  
विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना

**Correct Answer:** transmit or absorb light of different colours  
विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना

**Candidate Answer:** transmit or absorb light of different colours  
विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना

Question 33. Which of the following is not a weighted code?

निम्नलिखित में से कौन-सा वेटेड कोड (भारित कूट) नहीं है ?

**Options:**

- 1) Excess 3 - Code  
एक्सेस 3-कोड
- 2) Binary Number System  
द्वि-आधारी संख्या प्रणाली
- 3) Decimal Number System  
डेसीमल संख्या प्रणाली
- 4) BCD Number System  
बी सी डी संख्या प्रणाली

**Correct Answer:** Excess 3 - Code  
एक्सेस 3-कोड

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 34. 'Residex' is associated with :


रेज़िडेक्स का सम्बन्ध किससे है ?

**Options:**

- 1) Share prices  
शेयरों की कीमत से
- 2) Price inflation  
मुद्रास्फीति से
- 3) Mutual fund prices  
म्यूचुअल फंड की कीमतों से
- 4) Land prices  
जमीन की कीमतों से

**Correct Answer:** Land prices  
जमीन की कीमतों से

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]



Question 35. Ozone saves the biosphere by absorbing high energy radiations called \_\_\_\_\_ .

ओज़ोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं ?

**Options:**

- 1) Infra-red (IR)  
इन्फ्रा- रेड
- 2) Gamma rays  
गामा किरणें
- 3) Ultraviolet rays (UV)  
अल्ट्रा-वायलेट किरणें (यू वी)
- 4) X-rays  
एक्स रेज़

**Correct Answer:** Ultraviolet rays (UV)  
अल्ट्रा-वायलेट किरणें (यू वी)

**Candidate Answer:** Ultraviolet rays (UV)  
अल्ट्रा-वायलेट किरणें (यू वी)

Question 36. Birju Maharaj is a well known exponent of

बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं ?

**Options:**

- 1) Manipuri dance  
मणिपुरी नृत्य
- 2) Kathak  
कत्थक
- 3) Odissi  
ओडिसी
- 4) Kathakali  
कथकली

**Correct Answer:** Kathak

कथक

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 37. In the absence of the earth's atmosphere, sky would appear

पृथ्वी के वायुमण्डल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा ?

**Options:**

1) blue

नीला

2) deep red

गहरा लाल

3) white

श्वेत

4) black

काला

**Correct Answer:** black

काला

**Candidate Answer:** black

काला

Question 38. The First Woman President of the Indian National Congress was

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं ?

**Options:**

1) Sarojini Naidu

सरोजिनी नायडू

2) Vijayalakshmi Pandit

विजय लक्ष्मी पंडित

3) Annie Besant

एनी बेसेंट

4) Kadambani Ganguli

कादम्बनी गॉंगुली

**Correct Answer:** Annie Besant

एनी बेसेंट

**Candidate Answer:** Annie Besant

एनी बेसेंट

Question 39. Which of the following programmes meet the credit needs of poor women?

निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम निधन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ?

**Options:**

1) Mahila Samridhi Yojna

महिला समृद्धि योजना

2) Rashtriya Mahila Kosh

राष्ट्रीय महिला कोष

3) Indira Mahila Yojna

इन्दिरा महिला योजना

4) Mahila Samakhya Programme

महिला समाख्या कार्यक्रम

**Correct Answer:** Rashtriya Mahila Kosh

राष्ट्रीय महिला कोष

**Candidate Answer:** Mahila Samridhi Yojna

महिला समृद्धि योजना

Question 40. The Comptroller and Auditor-General of India submits his report relating to the accounts of the Union to the \_\_\_\_\_ .

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा-जोखा सम्बन्धी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं ?

**Options:**

1) Finance Minister

वित्त मंत्री

2) Prime Minister

प्रधान मंत्री

3) President

राष्ट्रपति

4) Chief Justice of the Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

**Correct Answer:** President

राष्ट्रपति

**Candidate Answer:** Chief Justice of the Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Question 41. The first Buddhist Council was held at \_\_\_\_\_ .

प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी ?

**Options:**

- 1) Kashmir  
कश्मीर
- 2) Rajagriha  
राजगृह
- 3) Pataliputra  
पाटलिपुत्र
- 4) Vaisali  
वैशाली

**Correct Answer:** Rajagriha

राजगृह

**Candidate Answer:** Pataliputra

पाटलिपुत्र

Question 42. Where do the Western and Eastern Ghats meet?

पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है ?

**Options:**

- 1) Nilgiri hills  
नीलगिरी की पहाड़ियों में
- 2) Cardamom hills  
काड़ीमम की पहाड़ियों में
- 3) Palani hills  
पलानी की पहाड़ियों में
- 4) Annamalai hills  
अन्नामलाई की पहाड़ियों में

**Correct Answer:** Nilgiri hills

नीलगिरी की पहाड़ियों में

**Candidate Answer:** Annamalai hills

अन्नामलाई की पहाड़ियों में

Question 43. Who was the founder of the Satvahana Empire?

सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ?

**Options:**


- 1) Kanha  
कान्हा
- 2) Simuka  
सिमुक
- 3) Hala  
हल
- 4) Gautamiputra  
गौतमीपुत्र

**Correct Answer:** Simuka

सिमुक

**Candidate Answer:** Simuka

सिमुक



Question 44. Indian National Congress split for the first time in its session at

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ ?

**Options:**

- 1) Allahabad  
इलाहाबाद
- 2) Calcutta  
कलकत्ता
- 3) Surat  
सूरत
- 4) Lahore  
लाहौर

**Correct Answer:** Surat

सूरत

**Candidate Answer:** Calcutta

कलकत्ता

Question 45. Silica gel is a

सिलिका जैल क्या है ?

**Options:**

- 1) moisturizer  
आर्द्रता प्रदायक
- 2) flavouring agent  
सुवासकारी तत्व
- 3) drying agent  
सुखाने वाला पदार्थ
- 4) delicious food  
स्वादिलिष्ट भोजन

**Correct Answer:** drying agent

सुखाने वाला पदार्थ

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 46. Which Superfast train has AC Coach having Braille Signals?

किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडिशन डब्बों में ब्रेल सिगनलों की सुविधा है ?

**Options:**

- 1) Purushottam Express  
पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
- 2) Shramjeevi Express  
श्रमजीवी एक्सप्रेस
- 3) Himgiri Express  
हिमगिरि एक्सप्रेस
- 4) Purva Express  
पूर्वा एक्सप्रेस

**Correct Answer:** Purushottam Express

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 47. Biofertilizers convert nitrogen to \_\_\_\_\_ .

जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करते हैं ?

**Options:**


- 1) nitrates  
नाइट्रेटों में
- 2) ammonia  
अमोनिया में
- 3) nitrogenase  
नाइट्रोजिनेस में
- 4) amino acids  
अमीनो एसिड में

**Correct Answer:** ammonia

अमोनिया में

**Candidate Answer:** ammonia

अमोनिया में



Question 48. Shiva Thapa is associated with which of the following sports?

शिवा थापा का सम्बन्ध इनमें से किस खेल से है ?

**Options:**

- 1) Boxing  
बॉक्सिंग
- 2) Golf  
गोल्फ
- 3) Shooting  
शूटिंग
- 4) Badminton  
बैडमिंटन

**Correct Answer:** Boxing

बॉक्सिंग

**Candidate Answer:** Boxing

बॉक्सिंग

Question 49. The natural habitat of Rhinoceros in India is

भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है ?

**Options:**

- 1) Bharatpur  
भरतपुर
- 2) Gir forest  
गिर वन
- 3) Khaziranga  
काज़ीरंगा
- 4) Nilgiris  
नीलगिरि



**Correct Answer:** Khaziranga

काज़ीरंगा

**Candidate Answer:** Bharatpur

भरतपुर

Question 50. Which country recently voted to leave the European Union (EU)?

हाल ही में किस देश ने युरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया ?

**Options:**

1) Greece

ग्रीस

2) Spain

स्पेन

3) United Kingdom

यूनाइटेड किंगडम

4) Germany

जर्मनी

**Correct Answer:** United Kingdom

यूनाइटेड किंगडम

**Candidate Answer:** United Kingdom

यूनाइटेड किंगडम

Question 51. 36 men together can build a wall 140 m long in 21 days ; the number of men working at the same rate required to build the same wall in 14 days is

36 आदमी मिलकर 140 मी. लम्बी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी ?

**Options:**

1) 54

2) 48

3) 36

4) 18

**Correct Answer:** 54

**Candidate Answer:** 54

Question 52. The perimeters of a square and a rectangle are equal . If their area be 'A' m<sup>2</sup> and 'B' m<sup>2</sup> then correct statement is

एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। यदि उनके क्षेत्रफल 'A' मी.<sup>2</sup> और 'B' मी.<sup>2</sup> हो तो सही कथन क्या है ?

**Options:**

1) A < B

2) A ≤ B

3) A > B

4) A ≥ B

**Correct Answer:** A > B

**Candidate Answer:** A ≥ B

Question 53. A man bought a watch for 10% discount. If he had bought for 20% discount he would have got the watch for ₹ 125 less . The marked price of the watch is

किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी ₹ 125 कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए ?

**Options:**

1) ₹ 2500

2) ₹ 1250

3) ₹ 3750

4) ₹ 1000

**Correct Answer:** ₹ 1250

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 54. The compound ratio of the inverse ratios of the ratios x : yz , y : zx , z : xy is :

x : yz , y : zx , z : xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइये ?

**Options:**

1) 1 : xyz

2) xyz : 1

3) 1 : 1

4) x : yz

**Correct Answer:** xyz : 1

**Candidate Answer:** 1 : 1

Question 55. By selling a tape - recorder for ₹ 1040 a man gains 4% . If he sells it for ₹ 950 , his loss will be

एक टेपरेकार्डर को ₹ 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे ₹ 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी ?

**Options:**

1) 5%

2) 4%

3) 4.5%

4) 9%

**Correct Answer:** 5%

**Candidate Answer:** 5%

Question 56. What will be the percentage of increase in the area of a square when each of its sides is increased by 10% ?

यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ?

**Options:**

- 1) 20
- 2) 11
- 3) 121
- 4) 21

**Correct Answer:** 21

**Candidate Answer:** 21

Question 57. Every Sunday, Gin jogs 3 miles. For the rest of the week, each day he jogs 1 mile more than the previous day. How many miles Gin jogs in 2 weeks ?

प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है। सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है ?

**Options:**

- 1) 42
- 2) 63
- 3) 84
- 4) 98

**Correct Answer:** 84

**Candidate Answer:** 84

Question 58. If  $p^3 - q^3 = (p - q) \{ (p + q)^2 - x p q \}$  then the value of x is

यदि  $p^3 - q^3 = (p - q) \{ (p + q)^2 - x p q \}$  हो तो x का मान क्या है ?

**Options:**

- 1) 1
- 2) -1
- 3) 2
- 4) -2

**Correct Answer:** 1

**Candidate Answer:** 1

Question 59.

On simplification the value of  $1 - \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}}$  is

सरलीकरण करने पर  $1 - \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}}$  का मान क्या होगा ?

**Options:**

- 1)  $2\sqrt{2} - 1$
- 2)  $1 - 2\sqrt{2}$
- 3)  $1 - \sqrt{2}$
- 4)  $-2\sqrt{2}$

**Correct Answer:**  $1 - 2\sqrt{2}$

**Candidate Answer:**  $1 - \sqrt{2}$

Question 60. A rectangle with one side of length 4 cm is inscribed in a circle of diameter 5 cm. Find area of the rectangle

एक आयत जिसकी एक भुजा 4 से.मी. लम्बी है, एक 5 से.मी. व्यास वाले वृत्त में अंकित है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ?

**Options:**

- 1)  $21 \text{ cm}^2$   
21 से.मी.<sup>2</sup>
- 2)  $12 \text{ cm}^2$   
12 से.मी.<sup>2</sup>
- 3)  $4 \text{ cm}^2$   
4 से.मी.<sup>2</sup>
- 4)  $3 \text{ cm}^2$   
3 से.मी.<sup>2</sup>

**Correct Answer:**  $12 \text{ cm}^2$

$12 \text{ से.मी.}^2$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 61. ABCD is a cyclic trapezium with  $AD \parallel BC$ . If  $\angle A = 105^\circ$ , then other three angles are

ABCD एक चक्रीय समलंब (ट्रैपेजियम) है जिसमें  $AD \parallel BC$  है। यदि  $\angle A = 105^\circ$  हो तो अन्य तीन कोण क्या होंगे?

**Options:**

1)  $\angle B = 75^\circ, \angle C = 75^\circ, \angle D = 105^\circ$

2)  $\angle B = 105^\circ, \angle C = 75^\circ, \angle D = 75^\circ$

3)  $\angle B = 75^\circ, \angle C = 105^\circ, \angle D = 75^\circ$

4)  $\angle B = 105^\circ, \angle C = 105^\circ, \angle D = 75^\circ$

**Correct Answer:**  $\angle B = 75^\circ, \angle C = 75^\circ, \angle D = 105^\circ$

**Candidate Answer:**  $\angle B = 75^\circ, \angle C = 105^\circ, \angle D = 75^\circ$

Question 62. If  $\sec 15\theta = \operatorname{cosec} 15\theta$  ( $0^\circ < \theta < 10^\circ$ ) then value of  $\theta$  is

यदि  $\sec 15\theta = \operatorname{cosec} 15\theta$  ( $0^\circ < \theta < 10^\circ$ ) हो तो  $\theta$  का मान क्या है?

**Options:**

1)  $9^\circ$

2)  $5^\circ$

3)  $8^\circ$

4)  $3^\circ$

**Correct Answer:**  $3^\circ$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 63.

If  $x = (0.25)^{\frac{1}{3}}, y = (0.4)^2, z = (0.216)^{\frac{1}{3}}$ , then

यदि  $x = (0.25)^{\frac{1}{3}}, y = (0.4)^2, z = (0.216)^{\frac{1}{3}}$  हो तो

**Options:**

1)  $Y > X > Z$

2)  $x > y > z$

3)  $Z > X > Y$

4)  $X > Z > Y$

**Correct Answer:**  $Z > X > Y$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 64. Average runs scored by 11 players of a cricket team is 23 runs . If the first player scored 113 runs . Find the average runs of the remaining players

11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिये ?

**Options:**

1) 8 runs

8 रन

2) 12 runs

12 रन

3) 14 runs

14 रन

4) 27 runs

27 रन

**Correct Answer:** 14 runs

14 रन

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 65.

If  $a^2 = by + cz, b^2 = cz + ax, c^2 = ax + by$ , then the value of  $\frac{x}{a+x} + \frac{y}{b+y} + \frac{z}{c+z}$  is

यदि  $a^2 = by + cz, b^2 = cz + ax, c^2 = ax + by$  हो तो  $\frac{x}{a+x} + \frac{y}{b+y} + \frac{z}{c+z}$  का मान क्या है ?

**Options:**

1) 1

2)  $a + b + c$

3)

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

4) 0

**Correct Answer:** 1

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 66.

If  $x^2+y^2=29$  and  $xy=10$ , where  $x>0, y>0, x>y$  then the value of  $\frac{x+y}{x-y}$  is

यदि  $x^2+y^2=29$  और  $xy=10$ , जहाँ  $x>0, y>0, x>y$  तो  $\frac{x+y}{x-y}$  का मान ज्ञात कीजिये ?

**Options:**

1)  $-7/3$

2)  $7/3$

3)  $3/7$

4)  $-3/7$

**Correct Answer:**  $7/3$

**Candidate Answer:**  $7/3$

Question 67. The ratio of circumradius and radius of an equilateral triangle is

किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होगा?

**Options:**

1) 1:2

2) 3:1

3) 2:1

4) 1:3

**Correct Answer:** 2:1

**Candidate Answer:** 1:3

Question 68. AB is a diameter of the circle with centre O, CD is chord of the circle, If  $\angle BOC = 120^\circ$ , then the value of  $\angle ADC$  is

AB किसी वृत्त का व्यास है जिसका केन्द्र O है। वृत्त की जीवा CD है। यदि  $\angle BOC = 120^\circ$  हो तो  $\angle ADC$  का मान क्या है ?

**Options:**

1)  $42^\circ$

2)  $30^\circ$

3)  $60^\circ$

4)  $35^\circ$

**Correct Answer:**  $30^\circ$

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 69. A straight tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of  $30^\circ$  with the ground. The distance from the foot of the tree to the point, where the top touches the ground is 10 m. Find the total height of the tree?

एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर  $30^\circ$  का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है। पेड़ के तल से उस बिन्दु तक की दूरी जहाँ शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है, 10 मी. है। पेड़ की कुल ऊँचाई ज्ञात कीजिये ?

**Options:**

1)  $10\sqrt{3}$  m

2)

$\frac{10\sqrt{3}}{3}$  m

3)  $10(\sqrt{3} + 1)$  m

4)  $10(\sqrt{3} - 1)$  m

**Correct Answer:**  $10\sqrt{3}$  m

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 70. The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is Rs. 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is :

किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज Rs. 525 है। उसी राशि पर दुगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा ?

**Options:**

1) Rs. 520

2) Rs. 550

3) Rs. 500

4) Rs. 515

**Correct Answer:** Rs. 500

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 71. If  $\tan \theta = \tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ$  and  $\theta$  is an acute angle, then  $2\theta$  is equal to

यदि  $\tan \theta = \tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ$  और  $\theta$  एक न्यून कोण है तो  $2\theta$  का मान क्या है ?

**Options:**

1) 30°

2) 45°

3) 90°


4) 0°

**Correct Answer:** 90°

**Candidate Answer:** 90°

Question 72. Study the following Bar graph and answer the question . The Bar Graph gives the annual rates of inflation in percentages for 1975 and 1987.

निम्नलिखित बार-ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार-ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है।



From 1975 to 1987 , inflation rate increased in the third world countries approximately by

वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रा स्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई ?

**Options:**

1) 10%

2) 20%

3) 30%


4) 36%

**Correct Answer:** 36%

**Candidate Answer:** 36%

Question 73. Study the following Bar graph and answer the question . The Bar Graph gives the annual rates of inflation in percentages for 1975 and 1987.

निम्नलिखित बार-ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार-ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है।



The change in rate of inflation was least in which of the following .

मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इन में से कहां थी ?

**Options:**

1) Developed Nations

विकसित देशों में

2) UK

यू. के.

3) World

विश्व में

4) Third world

तीसरी दुनिया में

**Correct Answer:** World


विश्व में

**Candidate Answer:** World

विश्व में

Question 74. Study the following Bar graph and answer the question. The Bar Graph gives the annual rates of inflation in percentages for 1975 and 1987.

निम्नलिखित बार-ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार-ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है।



Comparing the figures for USA vis-a-vis the developed nations, it can be concluded that

विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि

**Options:**

1) USA had better control on inflation

संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा स्फीति पर बेहतर नियन्त्रण था।

2) Developed nations had better control on inflation

विकसित देशों का मुद्रा स्फीति पर बेहतर नियन्त्रण था

3) The inflation rate

continues to be the same for USA and developed nations

संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रा स्फीति दर एक जैसी ही रही है।

4) No conclusions can be

drawn

कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता है


**Correct Answer:** USA had better control on inflation

संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा स्फीति पर बेहतर नियन्त्रण था।

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 75. Study the following Bar graph and answer the question. The Bar Graph gives the annual rates of inflation in percentages for 1975 and 1987.

निम्नलिखित बार-ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार-ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है।



In the year 1987, the inflation rate in the third world countries vis-a-vis the world jumped approximately by

वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रा स्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोत्तरी हुई ?

**Options:**

- 1) 135%
- 2) 126%
- 3) 122%
- 4) 200%

**Correct Answer:** 126%

**Candidate Answer:** 135%

Question 76. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it.

RECTIFY

**Options:**

- 1) SATISFY
- 2) CORRECT
- 3) REDUCE
- 4) PACIFY

**Correct Answer:** CORRECT

**Candidate Answer:** PACIFY

Question 77. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which is opposite in meaning to the given word and click the button corresponding to it.

VANQUISH

**Options:**

- 1) VANISH
- 2) VARNISH
- 3) SURRENDER
- 4) TRAMPLE

**Correct Answer:** SURRENDER

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

Question 78. Four words are given, out of which only one word is spelt correctly. Choose the correctly spelt word and click the button corresponding to it.

**Options:**

- 1) Groteasque
- 2) Grotasque
- 3) Growtesque
- 4) Grotisque

**Correct Answer:** Grotisque

**Candidate Answer:** Groteasque



Question 79. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

Here is something pretty (A) / that you can (B) / wear on the party (C) / No Error (D)

**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** C

**Candidate Answer:** C

Question 80. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

He was for all (A) / selling the car (B) / and buying a bicycle (C) / No Error (D)

**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** A

**Candidate Answer:** A

Question 81. In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the "No error" option.

Look at what (A) / I am doing (B) / and do like I do (C) / No Error (D)

**Options:**

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

**Correct Answer:** C

**Candidate Answer:** D

Question 82. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

See me tomorrow without \_\_\_\_\_.

**Options:**

- 1) fails
- 2) failure
- 3) fail
- 4) failing

**Correct Answer:** fail

**Candidate Answer:** fail

Question 83. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

Radium \_\_\_\_\_ rays that blind the eyes.

**Options:**

- 1) gives away
- 2) gives over
- 3) gives up
- 4) gives off

**Correct Answer:** gives off

**Candidate Answer:** gives over

Question 84. The sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word(s). Four alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it.

You will have to work \_\_\_\_\_ you are in the office.

**Options:**

- 1) as long as
- 2) as good as
- 3) as far as
- 4) so far as

**Correct Answer:** as long as

**Candidate Answer:** as long as

Question 85. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.


To add fuel to the fire

**Options:**

- 1) Prevent fire from dying out
- 2) Make the fire burn brightly
- 3) Make things worse
- 4) Waste fuel for no reason.

**Correct Answer:** Make things worse

**Candidate Answer:** Make things worse



Question 86. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.

To take to heart

**Options:**

- 1) To be greatly affected
- 2) To take something heartily
- 3) To strike at the heart, out of enjoyment
- 4) To suffer from heart disease

**Correct Answer:** To be greatly affected

**Candidate Answer:** To take something heartily

Question 87. In each of the questions, four alternatives are given for the Idiom/Phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase and click the button corresponding to it.

To bring to light

**Options:**

- 1) To put on light
- 2) To reveal
- 3) To bring a light
- 4) To arrange light sufficiently

**Correct Answer:** To reveal

**Candidate Answer:** To bring a light

Question 88. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

Lying in my room, the music could be heard

**Options:**

- 1) I could hear the music
- 2) The music can be heard
- 3) The music can be heard by me
- 4) No improvement

**Correct Answer:** I could hear the music

**Candidate Answer:** The music can be heard by me

Question 89. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

Come quickly if you will catch the train

**Options:**

- 1) you want to
- 2) you shall
- 3) you could
- 4) No improvement

**Correct Answer:** you want to

**Candidate Answer:** you want to

Question 90. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

At the sound of foot steps he turned round fast really

**Options:**

- 1) real fast
- 2) real fastly
- 3) real faster
- 4) No improvement

**Correct Answer:** real fast

**Candidate Answer:** real fast

Question 91. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

Only a few people came to the art exhibition as it was raining hard all day.

**Options:**

- 1) few
- 2) little
- 3) a small amount of
- 4) No improvement

**Correct Answer:** No improvement

**Candidate Answer:** few

Question 92. A sentence/a part of the sentence is underlined. Four alternatives are given to the underlined part which will improve the sentence. Choose the correct alternative and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to "No improvement".

His immediate ambition was to find a place to live in.

**Options:**

- 1) Strategy
- 2) Design
- 3) Aim
- 4) No improvement

**Correct Answer:** Aim

**Candidate Answer:** Aim

Question 93. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

A large body of people playing various musical instruments.

**Options:**

- 1) Melody
- 2) Harmony
- 3) Elocution
- 4) Orchestra

**Correct Answer:** Orchestra

**Candidate Answer:** Orchestra

Question 94. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

Solemn religious acts

**Options:**

- 1) Demonstrations
- 2) Celebrations
- 3) Rites
- 4) Functions

**Correct Answer:** Rites

**Candidate Answer:** Rites

Question 95. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words/sentences and click the button corresponding to it.

That which cannot be averted

**Options:**

- 1) Inevitable
- 2) Irreparable
- 3) Incomparable
- 4) Indisputable

**Correct Answer:** Inevitable

**Candidate Answer:** Inevitable

Question 96. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examinations and get a job and earn one's livelihood. If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation; life is something extraordinarily wide and profound, it is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. To understand life is much more important than to get a degree or pass an examination for a job. Life, with all its subtleties, is such a vast expanse. It has its extraordinary beauty, its sorrows and joys. It also has its hidden things of the mind such as envies, ambitions, passions, fears, fulfilments and anxieties. The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers and the fishes therein - all this is life. When we are young we must seek and find out what life is all about. Thus we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely, without fear, without a formula, so that we begin to discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. Most of us have fear in one form or another. Where there is fear there is no intelligence. Thus what education should do is help us understand the need of freedom. Unless we are free we will not understand the whole process of living. When we are free we have no fear. We do not imitate but we discover.

What is the effect of fear on humans?

**Options:**

- 1) We understand life's great mystery.
- 2) We are not able to develop our intelligence.
- 3) We think freely.
- 4) We see the vast expanse of life.

**Correct Answer:** We are not able to develop our intelligence.

**Candidate Answer:** We are not able to develop our intelligence.

Question 97. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examinations and get a job and earn one's livelihood. If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation; life is something extraordinarily wide and profound, it is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. To understand life is much more important than to get a degree or pass an examination for a job. Life, with all its subtleties, is such a vast expanse. It has its extraordinary beauty, its sorrows and joys. It also has its hidden things of the mind such as envies, ambitions, passions, fears, fulfilments and anxieties. The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers and the fishes therein - all this is life. When we are young we must seek and find out what life is all about. Thus we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely, without fear, without a formula, so that we begin to discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. Most of us have fear in one form or another. Where there is fear there is no intelligence. Thus what education should do is help us understand the need of freedom. Unless we are free we will not understand the whole process of living. When we are free we have no fear. We do not imitate but we discover.

The aim of education is to make us realise the need of \_\_\_\_\_ .

**Options:**

- 1) understanding science
- 2) freedom
- 3) jobs
- 4) passing examinations

**Correct Answer:** freedom

**Candidate Answer:** freedom

Question 98. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examinations and get a job and earn one's livelihood. If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation; life is something extraordinarily wide and profound, it is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. To understand life is much more important than to get a degree or pass an examination for a job. Life, with all its subtleties, is such a vast expanse. It has its extraordinary beauty, its sorrows and joys. It also has its hidden things of the mind such as envies, ambitions, passions, fears, fulfilments and anxieties. The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers and the fishes therein - all this is life. When we are young we must seek and find out what life is all about. Thus we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely, without fear, without a formula, so that we begin to discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. Most of us have fear in one form or another. Where there is fear there is no intelligence. Thus what education should do is help us understand the need of freedom. Unless we are free we will not understand the whole process of living. When we are free we have no fear. We do not imitate but we discover.

When we are young we should \_\_\_\_\_ .

**Options:**

- 1) seek the meaning of life
- 2) study and get a degree
- 3) try for a good job
- 4) study science

**Correct Answer:** seek the meaning of life

**Candidate Answer:** seek the meaning of life

Question 99. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examinations and get a job and earn one's livelihood. If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation; life is something extraordinarily wide and profound, it is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. To understand life is much more important than to get a degree or pass an examination for a job. Life, with all its subtleties, is such a vast expanse. It has its extraordinary beauty, its sorrows and joys. It also has its hidden things of the mind such as envies, ambitions, passions, fears, fulfilments and anxieties. The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers and the fishes therein - all this is life. When we are young we must seek and find out what life is all about. Thus we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely, without fear, without a formula, so that we begin to discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. Most of us have fear in one form or another. Where there is fear there is no intelligence. Thus what education should do is help us understand the need of freedom. Unless we are free we will not understand the whole process of living. When we are free we have no fear. We do not imitate but we discover.

Education helps us realize the \_\_\_\_\_ .

**Options:**

- 1) way to develop our career
- 2) need for good health
- 3) meaning of fear
- 4) necessity of freedom

**Correct Answer:** necessity of freedom

**Candidate Answer:** way to develop our career

Question 100. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the four alternatives and click the button corresponding to it.

The function of education is to prepare young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examinations and get a job and earn one's livelihood. If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation; life is something extraordinarily wide and profound, it is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, we shall miss the whole point of life. To understand life is much more important than to get a degree or pass an examination for a job. Life, with all its subtleties, is such a vast expanse. It has its extraordinary beauty, its sorrows and joys. It also has its hidden things of the mind such as envies, ambitions, passions, fears, fulfilments and anxieties. The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers and the fishes therein - all this is life. When we are young we must seek and find out what life is all about. Thus we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely, without fear, without a formula, so that we begin to discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. Most of us have fear in one form or another. Where there is fear there is no intelligence. Thus what education should do is help us understand the need of freedom. Unless we are free we will not understand the whole process of living. When we are free we have no fear. We do not imitate but we discover.

The passage is about \_\_\_\_\_ .

**Options:**

- 1) Education
- 2) Freedom
- 3) Intelligence
- 4) Livelihood

**Correct Answer:** Education

**Candidate Answer:** Intelligence